

## **\*प्रेस विज्ञप्ति\***

### **\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज\***

**\*दिनांक- सितम्बर 28 , 2020\***

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **\*84 वाहनों का चालान व 13 वाहनों से कुल 6000/-रूपया शमन शुल्क वसूल\*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

**\*कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा **\*188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 13\*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व **\*मास्क न लगाने वाले कुल- 84 व्यक्तियों से 8400/- रुपये शमन शुल्क\*** वसुला गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **\*कुल- 08 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार\*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही:-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल- 05 अभि0गण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 ली0 कच्ची शराब व 62 शीशी अवैध नेपाली शराब व 16 शीशी अवैध देशी शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

**\*थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त**

अशोक चौरसिया पुत्र गुप्ती नि० मलकौली थाना बगहा पश्चिमी चम्पारण बिहार के कब्जे से \*16 शीशी अवैध देशी शराब, बरामद कर थाना स्थानीय पर \*मु०अ०सं०- 186/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

**\*थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त**

1. राजेश पुत्र कोलाई नि० रायपुर पण्डित थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर \*मु०अ०सं०- 224/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम\*
2. सीताराम पुत्र चिनक नि० जंगल गुलहरिया थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से \*50 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर \*मु०अ०सं०- 225/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\***

अभियुक्त मुन्ना सिंह पुत्र विष्णु नि० मोथौली खुर्द थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से \*12 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर \*मु०अ०सं०- 413/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

**\*कस्टम अधि० के अन्तर्गत कि गयी कार्यवाही:-\***

\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से \*750 किलो ग्राम मटर\* की बरामद कर थाना स्थानीय पर \*मु०अ०सं०- निल/20, धारा- 11 कस्टम एक्ट\* का अभियोग पंजीकृत कर रिपोर्ट मा० न्या० पंजीकृत कर चालानी प्रेषित किया गया ।

**पशुकुरता अधि० के अन्तर्गत कि गयी कार्यवाही:-\***

\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त चन्द्रेश पासवान पुत्र शैलेश सा० कुरहवा खुर्द थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से \*01 अदद भैस को क्रुरता पूर्वक मारते पीटते हुये ले जाते समय पकड़ कर थाना स्थानीय पर

**\*मु0अ0सं0- 175/20, धारा- 11 क पशु क्रुरता अधिनियम\*** का अभियोग पंजीकृत कर रिपोर्ट मा0 न्या0 पंजीकृत कर चालानी प्रेषित किया गया ।

**\*थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त महादेव गौड़ पुत्र झकरी सा0 खेरहवा जंगल थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से \*07 अदद भैस व 04 अदद पड़वा को क्रुरता पूर्वक मारते पीटते हुये ले जाते समय पकड़ कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0- 109/20, धारा- 11 पशु क्रुरता अधिनियम\*** का अभियोग पंजीकृत कर रिपोर्ट मा0 न्या0 पंजीकृत कर चालानी प्रेषित किया गया ।

### **आम्सु अधि0 के अन्तर्गत कि गयी कार्यवाही:-\***

**\*थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त मोहम्मदीन पुत्र कमरुद्दीन सा0 बटईडिहा जनपद महाराजगंज के कब्जे से \*01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर **\*मु0अ0सं0- 223/20, धारा- 4/25 आम्सु अधिनियम\*** का अभियोग पंजीकृत कर रिपोर्ट मा0 न्या0 पंजीकृत कर चालानी प्रेषित किया गया ।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **\*कुल-32\*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**\*जनपद में 27/28-09-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 17 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\***